



**VIKALP  
SECURITIES LIMITED**

To,  
The Listing Department  
Bombay Stock Exchange, Mumbai  
Phirozejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai-400001

Date: 03/02/2021

Scrip Code:531334

**Sub: COPIES OF BOARD MEETING NOTICE PUBLISHED IN NEWSPAPERS**

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are attaching herewith scanned copies of the below mentioned newspapers in which we have published Notice of the Company's Board Meeting for considering Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31.12.2020 for the aforesaid year of our Company :-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE	EDITION
Financial Express	3 <sup>rd</sup> February, 2021	English	Lucknow
Jansatta	3 <sup>rd</sup> February, 2021	Hindi	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking You,  
For Vikalp Securities Limited

Arun Kejriwal  
Managing Director  
DIN : 00687890

**HRB FLORICULTURE LIMITED**  
CIN: L11300R1995PLC009541  
Registered Office: A-28, Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur-302016 Ph: 0141-2303098, 2303097 (Tollfree)  
E-mail: hrbit@hrb.co.in, Website: www.hrb.co.in

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021 at 03:00 P.M. at the registered office of the Company inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020. The said notice may be accessed on the Company's website at www.hrb.co.in and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com

**PASUPATI FINCAP LTD**  
CIN: L65910HR1996PLC033099  
Regd. Office: Village Kapriwas (Dhanuhera), Distt. Rewari, Haryana  
Head Office: 127-128, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110 065

**NOTICE**  
Notice is hereby given that the Board Meeting and Audit Committee Meeting of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 12:28, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 inter-alia, to consider the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 31-12-2020.

**HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED**  
Registered Office: B-28 Safdarjung Enclave New Delhi - 110029  
CIN: L74899DL1986PLC031191

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 2:00 P.M. inter-alia, to consider and approve the un-audited financial results of the Company for quarter ended on 31st December, 2020.

**AKS CREDITS LIMITED**  
Regd. Office: 6081, II<sup>nd</sup> Floor, Room No. 201, Gali Batashan, Khari Baoli, Delhi-110006  
CIN: L65921DL1991PLC043544

**NOTICE**  
Pursuant to the provisions of the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 11th day of February, 2021 at 3:00 P.M. at 6081, II<sup>nd</sup> Floor, Room No. 201, Gali Batashan, Khari Baoli, New Delhi-110006, to consider, approve and take on record, inter-alia the un-audited quarterly financial results of the company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020 and the other relevant matters with the Board's approval.

**VINAYAK POLYCON International Ltd.**  
CIN No.: L25209RJ2009PLC030620  
Regd. Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 (Raj.) India.  
Tel. No. +91-141-2377007

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 11th day of February, 2021 at 10:00 A.M. at its Registered Office 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur, inter alia, to consider and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020.

**NUTECH GLOBAL LTD.**  
CIN No. - L1714R1984PLC003023  
REGD. OFFICE: E-149, RICO INDUSTRIAL AREA, BHILWARA-311001, (RAJASTHAN)  
TEL NO:-91 1482 260650  
E-MAIL ID: info@nutechglobal.com  
WEBSITE: www.nutechglobal.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, 2015 and other applicable provisions, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021 at 04:00 P.M. at E-149, RICO Industrial Area, Bhilwara-311001 (Rajasthan), Inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2020.

**GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED**  
Regd. Off: 4 N.M. Stone, Barn Chiharra Road, Village: Kherka Musalman, P.O. Tandachen, Tehsil: Bahadurgarh, District: Jhajjar, Haryana-124507  
CIN: L01122HR1994PLC033029;  
Tel: +91-9811341542  
Email: genomicvalley@gmail.com  
Visit: http://www.genomicvalley.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 11th February, 2021 at 11:45 A.M. inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2020.

**VLS FINANCE LTD.**  
Regd. Off.: 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065  
CIN: L65910DL1986PLC031219  
Ph. No. -011-46656666, Fax: 011-46656699  
Email: vls@vlsfinance.com, Website: www.vlsfinance.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021, inter-alia to consider the Un-audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2020.

**BCL Industries Limited**  
Regd. Office: Hazzi Rattan Link Road, Post Box No. 71, Bahadur-151001 Ph. : 0164-2240163, 2240443, 2211628, Fax: 0164-5003638 Website: www.bcl.ind.in, Email: info@bcl.ind.in  
CIN: L24231FB1979PLC006324

**COMPANY NOTICE**  
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 09th February, 2021, inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for quarter/nine months ended 31st December, 2020. The said Notice is also available on Company's Website www.bclind.in and BSE website www.bseindia.com

**SAMRAT FORGINGS LIMITED**  
CIN: U28910CH1981PLC004522  
Regd. Office: #406, First Floor, Sector 15-A, Chandigarh-160015  
Ph: 0172-2774555, 9257240444, E-mail: info@samratforgings.com  
Website: www.samratforgings.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021, inter-alia to consider and approve the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2020.

**FEDERAL BANK YOUR PERFECT BANKING PARTNER**  
NOTICE REGARDING LOCKER OPERATION  
The Federal Bank hereby gives notice that certain irregularities have been observed in the maintenance of locker(s) hired by persons whose details are furnished below. Notice(s) sent to the respective locker hiree(s) has/have been returned unopened. The locker hiree(s)/other interested parties are hereby informed that in case they fail to regularize the locker arrangement by visiting the Branch within 7 days from the date of this notice, Bank will be constrained to force open the locker(s) and take necessary further actions, as the Bank may deem fit, at the cost and expenses of the locker hiree(s).

**MOHINDRA FASTENERS LIMITED**  
CIN: L74899DL1995PLC064215  
Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohatk Road, New Delhi-110087  
Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11-4620040, 46200401  
Fax: +91-11-46200444

**PUBLIC NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting (Serial No. 2021/EM01) of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021 at 04:30 PM at Friends Club at 17-A, Block-D, Friends Colony East, W New Delhi-110065, inter alia, to consider and approve the un-audited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 and other business(s).

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for dealing in securities of the Company is already closed from 1st January, 2021 till the expiry of 48 hours after the declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 as already intimated to the stock exchange vide our letter dated 31.12.2020.

The notice may also be accessed on the Company's website at www.mohindra.asia and also on the Stock Exchange website at www.mse.in

**INTEC CAPITAL LIMITED**  
CIN: L74899DL1994PLC057410  
Regd. Off.: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi - 110 019  
T: +91-11-46522200/300; F: +91-11-46522233  
Website: www.intecapital.com

**NOTICE**  
Pursuant to the Regulation 29 read with regulation 47 and other applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that, a 7th meeting for the F.Y. 2020-21 of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th day of February, 2021 at 02:00 P.M. (IST) at 708, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 via video conferencing inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020 and to take on record Limited report thereon.

**FRICK INDIA LIMITED**  
Regd. Office: 21.5 Km, Main Mathura Road, Faridabad - 121003  
CIN - L74899HR1962PLC002618, E-mail- cs@frickmail.com,  
Ph. 0129-2275691-94, 2270546-47 : Fax: 0129-2275695 Web: www.frickweb.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; that Meeting of the Audit Committee and the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 11<sup>th</sup> day of February, 2021 at 02:30 P.M., and 04:00 P.M., respectively, through Video Conferencing; inter-alia to consider, approve and take on record the Un-audited (Reviewed) Financial Results of the Company for the Third Quarter and Nine Months ended on December 31, 2020 as well as to dispose of other item(s) as listed on the Agenda fixed for the respective Meeting(s).

Trading window for dealing in the shares of the Company shall remain closed from Friday, January 01, 2021 to Saturday, February 13, 2021 (both days inclusive). The said information is also available on our website at www.frickweb.com and on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in

**FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

S.No.	PARTICULARS	DETAILS
1	Name of corporate debtor	Gadhinglaj Agro Alcochem Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	07.08.2007
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Companies Act, 1956 (ROC-Pune)
4	Corporate Identity No. of corporate debtor	U24200PH2007PLC130542
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: Survey No. 990(1) Beradwadi at Post Bhadgaon, Taluka Gadhinglaj, Gadhinglaj, Maharashtra 416502 Principal Office: 17A/1, WEA, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, Delhi 110005
6	Date of closure of Insolvency Resolution Process	27th January, 2021
7	Liquidation commencement date of corporate debtor	27th January, 2021
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Gulshan Kumar Gupta IBBI/PA-001/MP-P00021/2016-17/10046
9	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	202, Kumar House, Central Market, Prashant Vihar, Delhi 110085. ggulshan@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	202, Kumar House, Central Market, Prashant Vihar, Delhi 110085. lrp.gauk@gmail.com
11	Last date for submission of claims	25th February, 2021

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench has ordered the commencement of liquidation of the Gadhinglaj Agro Alcochem Limited on 27th January, 2021 (order uploaded on NCLT website on 01.02.2021).

**U.P. ASBESTOS LIMITED**  
Regd. Office :  
P.O.-Mohanlalagar, Lucknow-226301 (U.P.)  
Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29(1)(A) read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 12<sup>th</sup> February, 2021 at 01:30 P.M. at Mahmoodabad Estate Building, 15, Hazratganj, Lucknow-226001, inter-alia, to consider and take on record the Un-audited Financial Results for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020 and other items.

**GOODLUCK INDIA LTD.**  
Regd. Off: 509, Anunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001  
Website: www.goodluckindia.com  
E-mail: goodluck@goodluckindia.com  
CIN: L74899DL1986PLC050910

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at Corp. Office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Un-audited standalone and consolidated Financial Results of the Company for the Quarter/Nine months ended on 31<sup>st</sup> December, 2020.

**GOODLUCK INDIA LIMITED**  
(R. C. Garg) Director  
DIN: 00298129

**S.R. Industries Limited**  
CIN: L25246PB1986PLC009531  
Regd. Off: E-217 Industrial Area, Phase II, Mohali, Punjab - 160071 Website: www.srfotooters.com  
Email: info@srfotooters.com Tel: +91 172 4602888

**NOTICE**  
Notice is hereby given in terms of Regulation 29 read with 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.

**AJANTA SOYA LIMITED**  
CIN L15494R1992PLC016617  
Regd. Office & Works : SP-916, Phase-III, Industrial Area, Bhiwadi-301019, Rajasthan  
Tel: 911-6176727, 911-6128880;  
Corp. Office: 12<sup>th</sup> Floor, Biggo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi - 110034  
Tel: 011-42515151, Fax: 011-42515100  
E-mail: cs@ajantasoya.com, Website: www.ajantasoya.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13<sup>th</sup> February, 2021 inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED**  
Regd. Office: Unit No 2053, 2<sup>nd</sup> Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006  
CIN: L51509DL1985PLC020372  
E-mail id: limits@atlantic@gmail.com  
Website: www.atlantic-commercial.com  
Ph: 011-41539140

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended December 31, 2020.

**STATE BANK OF INDIA**  
Zonal Office: AO-6, Correnthum Building, Sec-62, Noida  
E-Auction Sale Notice of Immovable Property  
Sale of immovable property mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (No.54 of 2002)

Whereas, the Authorized Officer of State Bank of India has taken physical possession of the following property pursuant to the notice issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 in the following loan accounts with our Branch with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" for realization of Bank's dues. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.banksauctions.com

Name of the Borrower & Guarantor	Description of the Property Owner of Property	Amt. o/s (as mentioned in the Notice u/s 13(2))	Date of Demand Notice	Date of Possession
(Borrower/ Mortgagor)- Smt. Sandeep Kaur W/o Sh. Parmajeet Singh, (Co-Borrower/ Mortgagor)- Sh. Tajanjeet Singh S/o Sh. Mahendra Singh	Property Situated at Mohalla Muglusha, Najibabad, Bijnor (UP) Area: 55.76 Sq. Mtrs (In the Name of Smt. Sandeep Kaur W/o Sh. Parmajeet Singh & Sh. Tajanjeet Singh S/o Sh. Mahendra Singh) Registered in Bahi No.: 01, Zild No.: 6654, Page No.: 01-22, Document No.: 8710, Dated 12-06-2014. Bounded- On the North by: Road, On the South by: Pat Aazi of Rajendra Singh, On the East by: Pat Aazi of Rajendra Singh, On the West By: Service Centre of Narendra Kaur.	Rs. 6,35,795.07/- + Interest & other charges w.e.f. from 02.09.2020	20.11.2020	28.01.2021

**TERMS & CONDITIONS:**  
1. The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS". 2. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on the property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property & to inspect & satisfy themselves. Property can be inspected on 12/03/2021 between 11:00 a.m. to 2:00 p.m. 3. The intending bidders who have deposited the EMD and required assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact M/s C1 India Pvt Ltd. Udyog Vihar, Phase 2, Gull Petromech building, Building No. 301, Gurgaon, Haryana. Pin: 122015. E-mail id: support@banksauctions.com. Support Helpline Numbers: 124-4302020/21/22/23, 7291981124 / 1125 / 1126 and for any property related query may contact below Authorized Officer: Mr. Ajay Kumar Agarwal (Mobile No: 7738213085). Tel No: 0120-2544468, E-mail id: sbi.14702@sbil.co.in 4. The Bank has designated its Branch Office at... as facilitation centre to help the intending bidders in putting the bid on line. For Detailed Terms and Conditions please refer to www.banksauctions.com This Notice is also to be treated as 13 days Statutory sale notice to borrower and Guarantor(s) Under Rule 8(i) of Security Interest Enforcement, Rules 2002

**South West Pinnacle Exploration Limited**  
CIN: L13203HR2006PLC049480, Email ID: secretarial@southwestpinnacle.com  
Regd.Off.: Siddhartha House, 4th floor, Plot No.6, Sector-44, Gurgaon 122003

**EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31<sup>ST</sup> DECEMBER 2020**  
(Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended		Nine Months Ended		Year ended		Quarter ended		Nine Months Ended		Year ended	
		31.12.2020 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.12.2019 Unaudited	31.12.2019 Unaudited	31.12.2019 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.12.2020 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.12.2019 Unaudited	31.12.2020 Unaudited	31.12.2019 Unaudited	31.03.2020 Audited
1.	Total income from operations	2823.30	2452.56	1658.19	6736.75	4941.34	8,363.40	2823.30	2525.99	1684.19	6870.84	5181.82	8,580.06
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	468.97	434.22	167.19	1008.95	553.02	772.64	430.12	435.52	107.35	983.43	516.02	580.42
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items) items and/or item Extraordinary items/Profit or loss of JV	468.97	434.22	167.19	1008.95	553.02	772.64	421.78	441.66	104.24	1026.75	498.33	547.79
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra- ordinary items)	347.67	362.12	157.73	785.24	417.21	554.39	300.48	369.56	94.77	803.04	356.39	329.54
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	357.20	371.36	165.82	811.65	441.65	585.01	378.80	102.87	829.45	380.82	360.16	
6.	Equity Share Capital	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	5,913.51	-	-	-	-	-	5,602.62
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing operations)-												
Basic:		1.25	1.30	0.57	2.81	1.50	1.99	1.08	1.32	0.34	2.88	1.28	1.17
Diluted:		1.25	1.30	0.57	2.81	1.50	1.99	1.08	1.32	0.34	2.88	1.28	1.17

**ROADWAYS INDIA LIMITED**  
CIN: L63900DL1987PLC0319212  
Regd. Office: Plot No. 53-A/8, Rama Road Industrial Area, New Delhi- 110015  
Email: corporate@roadwaysindia.com, Website: www.roadwaysindia.com  
Tel: 011-47192065; Fax: 011-25815456

**NOTICE**  
Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on Friday, February 12<sup>th</sup>, 2021 at 3:30 P.M. to inter alia consider and approve the Un-audited Financial Results for the 3<sup>rd</sup> Quarter/ Nine months ended December 31, 2020.

**ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED**  
Regd. Office: Unit No 2053, 2<sup>nd</sup> Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006  
CIN: L51509DL1985PLC020372  
E-mail id: limits@atlantic@gmail.com  
Website: www.atlantic-commercial.com  
Ph: 011-41539140

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended December 31, 2020.

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10<sup>th</sup> February, 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10<sup>th</sup> February, 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10<sup>th</sup> February, 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10<sup>th</sup> February, 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10<sup>th</sup> February, 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10<sup>th</sup> February, 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10<sup>th</sup> February, 2021, inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results (provisional) of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

**NOTICE**  
Notice

# पत्रकार पूनिया को मिली जमानत स्त्री-पुरुष की विवाह उम्र समान रखने

## अदालत ने कहा, आरोपी के जांच को प्रभावित करने की संभावना नहीं है

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 2 फरवरी।

अदालत ने सिंधू बार्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से रिवॉकर को गिरफ्तार किए गए पत्रकार मंदिप पूनिया को मंगलवार जमानत दे दी। मुख्य मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतीश सिंह लांबा ने पूनिया की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह पुलिस का रिफर् एक जवान है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है। गिरफ्तारी के बाद पूनिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे।

पूनिया के खिलाफ भारतीय दंड

**KUWER INDUSTRIES LIMITED**  
R.O.: D-1004, First Floor, New Friends Colony,  
New Delhi-110065  
CIN: L74899DL1989PLC0056627,  
Tel. No. 011-28949396  
Email: ID info@kuwer.com,  
Website: www.kuwer.com  
**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Saturday, 13.02.2021, at 02:00 P.M. at registered office of Company at D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 to consider the following:  
1. To approve the Un-audited financial results for the quarter ended on 31st December, 2020.  
2. Any other matter with the permission of the Chairman.  
The intimation contained in this notice is also available on Company's website www.kuwer.com and www.bseindia.com.  
For Kuwer Industries Limited  
Date: 02.02.2021  
Place: New Delhi

### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा साहे, व्हे 600 002

**सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी, 2021 को चेन्नई में, अंग-बातों के साथ, 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही/नो माह के लिए बैंक के अलेखापरीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं अनुमोदित करने हेतु आयोजित होने वाली है।

यार्थ प्रथिम सेनापता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यालय अधिकारी  
स्थान: चेन्नई, दिनांक: 01.02.2021

### मोदी नैचुरल्स लिमिटेड

पंजी. क्र. 405, चौधरी बिल्डिंग, 82, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

(CIN: L15142DL1974FLC007349)

**सूचना**

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अधिनियम, 2015 के विनियम 29 और 31) के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अंग-बातों के साथ-साथ, 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदित और रिपोर्ट पर लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 09 फरवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी।

उक्त बोर्ड बैठक को सूचना कंपनी और वेबसाइट की वेबसाइट www.modinalia.com, www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

**कृते मोदी नैचुरल्स लिमिटेड**  
हस्ता./—  
अधिकृत अधिकारी  
कंपनी सचिव

दिनांक: नई दिल्ली  
दिनांक: 02.02.2021

### मोहन फार्मेटर्स लिमिटेड

सीआइएन: L74899DL1995PLC064215

पंजीकृत कार्यालय: 304 प्लाज्जा आर्केड, इन्दर पल्कलेव, दिल्ली-रोहतक रोड, नई दिल्ली-110087

वेबसाइट: www.mohindra.asia, ई-मेल: cs@mohindra.asia, फोन: +91-11-46200400, 46200401, फैक्स: +91-11-25282667

**सार्वजनिक सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता वित्तिय एवं प्रकटन अधिनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नीमाही हेतु अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदित करने और अन्य व्यापारिक कार्यों के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक (अंग सं. 2021/मौसमी/01) बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को 04.30 बजे अग्ररत 9 बजे तक, 17-ए, ब्लॉक-बी, क्रैसस कॉलोनी ईस्ट, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110065 पर आयोजित की जाएगी।

पुनः कम्पनी को प्रतिपूर्ति के डीलिंट के लिए सेबी (इन्वार्डर ट्रेडिंग नियम) विनियम, 2015 के अनुसार ट्रेडिंग विंडो प्रवृत्त हो 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नीमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे पश्चात तक बन्द कर दी गयी है जिसकी सूचना हमारे पत्र दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज को प्रवृत्त हो दे दी गयी है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.mohindra.asia तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in पर भी देखी जा सकती है।

बोर्ड के अध्यक्ष/सचिव  
कृते मोहन फार्मेटर्स लिमिटेड  
हस्ता./—  
(निर्दिष्ट पाठक)

तिथि: 2 फरवरी, 2021  
स्थान: दिल्ली

(कम्पनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी)

प्रथम संज्ञा आर्द्रपत्नी-25क

पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरीय क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में और

मैसर्स पासो फ्रेडिटे एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हाउस नो 31, ब्लॉक, प्लॉट 3,सेक्टर -3 रोहिणी नई दिल्ली-110085 में स्थित है के मामले में, आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसा परिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 25.12.2020 को आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन/विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने सूचना नियमों के साथ गणित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधिन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रतिलिपि किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से निजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय निदेशक का पत्र पते का उल्लेख होना आवश्यक है) को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

आवेदक के लिए या उनकी ओर से बर्णान गुप्ता, DIN:00125553

तारीख: 03.02.2021  
स्थान: नई दिल्ली

### नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN : L74899DL1974GOI07417

पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-III, 7, संस्थागत क्षेत्र, लॉबी रोड, नई दिल्ली -110003, वेबसाइट: http://www.nationalfertilizers.com

**सूचना**

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अधिनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिणामों की समीक्षा करने के बाद 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और संयोजित) पर विचार एवं अनुमोदन कर उन्हें रिपोर्ट में लिया जाएगा।

यथा संशोधित सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी दिनांक 02 अप्रैल, 2019 के परिपत्र सं. एनएसई/सीएफए/2019/11 के अनुसूचण में अभिलिखित व्यक्तियों, अभिलिखित वर्गवारियों और उनके करीबी रिश्तेदारों हेतु कंपनी के शेयरों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो दिनांक 1 जनवरी, 2021 से 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और संयोजित) की उद्घोषणा के पश्चात 48 घंटे, अर्थात् 14 फरवरी 2021 तक बंद रहेगी।

कृपित सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) और कमर्श पोर्टल [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी देखी जा सकती है।

हस्ता./—  
(अशोक झा)  
कंपनी सचिव

दिनांक: नई दिल्ली  
दिनांक: 01.02.2021

एन.एफ.एल. : किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव

### DATTA FINANCE AND TRADING PRIVATE LIMITED

REGD.OFFICE: S/O RAKESH GUPTA, 11 G/F DAYANAND VIHAR, NR DDA MARKET, EAST DELHI - 110092

CIN: U74899DL1986PT0023362; EMAIL: Hidatta2020@gmail.com

### PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given in accordance with the Circular of Reserve of Bank of India as per DNBR (PD) CC No.65/03.10.001/2015-16 dated July 9, 2015, that the Directors and shareholders of DATTA FINANCE AND TRADING PRIVATE LIMITED (the Company), a Company incorporated under the Companies Act, 1956 (CIN No: U74899DL1986PT0023362) having its Registered Office: S/o Rakesh Gupta, 11 G/F Dayanand Vihar, NR DDA Market, East Delhi Dd 110092 IN, India and having Certificate of Registration bearing No. 23362 obtained from the Reserve Bank of India as non-deposit taking Non-Banking Financial Company, propose to transfer management of the Company to Mr. Sujvoti Banerjee and Mr. Tarun Sharma. accordingly, the Company has obtained prior approval from the Reserve Bank of India vide Letter No. DOS (NBFC) ND.No.526/CMS-V/05.04.018/2020-21 dated 08th January, 2021 for change in management.

The reason for change of management of the company is because the company wants to expand the business.

The Company is registered as Non-Deposit taking Non-Banking Financial Company and do not propose to accept public deposits either before or after transfer of ownership and control. Any clarifications / concerns in this regard may be addressed directly to the Department of Supervision, 6, Sansad Marg, Reserve Bank of India, New Delhi - 110 001 and also to the Registered Office of the Company along with a copy marked to the above address within 30 days:

FOR: DATTA FINANCE AND TRADING PRIVATE LIMITED  
SUVJOTI BANERJEE  
Director  
Din: 07838378  
Place: New Delhi  
Date : 02/02/2021

### हॉर्बर्ट होटल्स लिमिटेड

पंजी. कार्या: 20, नोर्स कॉम्प्लेक्स, बी-28

सुभाष चोक, लखी नगर, दिल्ली-110092

कारपोरेट कार्या: होटल हॉर्बर्ट प्लाजा,

फ्लोराबाद रोड, आगरा-282001 (उत्तर प्रदेश)

CIN: L74899DL1989PLC038622

फोन: 0562-4048600, फैक्स: 0562-4048956

ईमेल: cs@horwardhotelsid.com

### सूचना

सेबी (सूचीबद्धता अधिनियम) एवं प्रकटीकरण अधिनियम, 2015 के विनियम 29 और 31 के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक, शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित कार्यालय, आगरा में बुलाई जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ, 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नीमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार व अनुमोदित करने की जाएगी।

आपका अधिकारी अधिकृत किया कंपनी की वेबसाइट [www.horwardhotelsid.com](http://www.horwardhotelsid.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते हॉर्बर्ट होटल्स लिमिटेड

हस्ता./—

स्थान: आगरा

एच.एन. निराला

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

DIN: 01533102

### PRABHAT SECURITIES LIMITED

CIN: L22022UP1982PLC005759

R/O:118/610 A, Kaushalpur-208012,

Ph: 5152-25347

E-Mail: [prabhatsecurities@gmail.com](mailto:prabhatsecurities@gmail.com),

Website: [www.prabhatsecuritiesid.com](http://www.prabhatsecuritiesid.com)

### NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (LODR) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that (07/2020) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Regd. Office, Kanpur on Friday, 12<sup>th</sup> February, 2020 at 12:15 PM, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Statements of the Company for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020. The trading window in respect of the Company's securities shall open after 48 hours of declaration of financial results of the Company for the Quarter ended on 31<sup>st</sup> December, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.prabhatsecuritiesid.com> and may also be accessed at CSE & MSEI website at <http://www.cseindia.com> & <http://www.msei.in>

For Prabhat Securities Limited  
Ramakant Kushwaha

Place: Kanpur

Date: 02.02.2021 (Managing Director)

### प्ररुप संख्या आईएससी-25ए

पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरीय क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में और

स्पेस टैलीलिंक लिमिटेड (CIN:U64200DL2009PLC190648)

जिसका पंजीकृत कार्यालय 22ए, जे.एल.जी हाउस, जनपथ, नई दिल्ली-110001

में स्थित है, के मामले में

..... आवेदनक

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को संविधान का अधिकार देने के लिए दिनांक 31 दिसंबर 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने सूचित निगमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधिन केंद्र सरकार को आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 निग, दूसरा क्षेत्र, पश्चिम दीन दयाल जंक्शन पथ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत कार्यालय प्रेषित कर तथा उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर 22ए, जे.एल.जी हाउस, जनपथ, नई दिल्ली-110001 में भेज दे।

कृते स्पेस टैलीलिंक लिमिटेड

हस्ता./—

(अधिकृत अधिकारी)

तिथि: 02.02.2021

स्थान: नई दिल्ली

DIN: 02605262

### SALE NOTICE

AFFINITY BEAUTY SALON PRIVATE LIMITED (In Liquidation)Liquidator: Mr. Rohit Sehgal

Registered Office: C-25 Green Park, Main Market, New Delhi, Delhi 110006

Email ID: rp.affinitysalon@gmail.com; rohit.sehgal@aaainsolvency.com

Contact Number: 7011568767 (Mr.Rohit Nagar)

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 26 February, 2021 at 3.00 pm to 5.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each)

Asset	Block	Reserve Price (In Rs.)	EMD Amount (In Rs.)	Incremental Value (In Rs.)
1.Furniture & Fixture:- I.Cassette AC 3Ton (QTY-11) II.Ducted AC 3.5 Ton (QTY-2) III.Split AC 1.5 Ton (QTY-2) IV.Split AC 1 Ton (QTY -1) V.Salon Furniture (Table, Chairs, Sofa, Shampoo Station, Massage Bed, LED Lights etc.) VI.Water Geyser-25Ltr (QTY-6) 2.Vehicles:- I.One SUV Car (Ford - Eco-sports - 2015) Reg. No. DL 12CB 5194 II.One Sedan Car (Toyota - Corolla Altis - 2011) Reg. No. DL 4CNE 7314	A	10.46 (In Lakhs)	0.50 (In Lakhs)	30 Thousand

Terms and Condition of the E-auction are as under

1.E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).

2.The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale is available on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

3.The interested bidders (Interested Bidders) will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (i) Company's name (Affinity Beauty Salon Private Limited), or, (ii) The Asset and property type.

4.The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DDMFT/RTGS in the Account of "AFFINITY BEAUTY SALON PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION", A/c No.: 5020005279968, HDFC Bank Branch: The Peach Tree, C-Block, Sushant Lok-1, Gurugram-122002, IFSC Code: HDFC0002686, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of AFFINITY BEAUTY SALON PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A or Form B as given in the Complete E-Auction process document.

5.The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E-Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure I (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexure can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 7:00 PM of 24<sup>th</sup> February, 2021. Intending bidders will have to upload their KYC documents along with the EMD submission details on <https://induction.auctiontiger.net> before 5:00 PM of 24<sup>th</sup> February, 2021.

6.The Name of the Eligible Bidders will be identified by the Liquidator to participate in e-auction on the portal (<https://induction.auctiontiger.net>). This auction service provider (Auction Tiger) will provide User ID and password by mail to eligible bidders.

7.In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator.

8.The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI will entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder.

9.The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the assets put on auction.

10.The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-auction or withdraw any asset therefrom from the auction proceeding at any stage without assigning any reason therefor.

11.After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name.

12.The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made thereunder.

13.If in case, not more than one bidder deposits the EMD, then in that case the Liquidator will have the absolute power to cancel the auction process after the consultation with the stakeholders.

The interested bidder(s) shall be provided access to the data room ("Data Room") established and maintained by the Company acting through the Liquidator in order to conduct a due diligence of the business and operations of the Company. The interested bidder(s) shall be provided access to the information in the Data Room until the E-Auction Date. The access to, and usage of the information in the

14.Data Room by the interested bidder(s) shall be in accordance with the rules as may be set forth by the Liquidator from time to time.

Date: 03.02.2021  
Place: Gurugram

Sd/-  
Rohit Sehgal  
Liquidator

Affinity Beauty Salon Private Limited in Liquidation  
IBBI Reg. No. : IBBI/PA-001/IN-P005282017-2018/10953

Address: A-604, Sujan Vihar, Sector-43, Gurugram, Haryana, 122002

Email ID: rohit.sehgal@aaainsolvency.com

### फेडरल बैंक

आपका राष्ट्रीय बैंकिंग पार्टनर

46, नार्वे एवेन्यू, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110026, टेली: 011-25229514, 25229515, ईमेल: [ndlp@federalbank.in](mailto:ndlp@federalbank.in)

लोक प्रचलन से संबंधित सूचना

द फेडरल बैंक एतद्वारा सूचित करता है कि कुछ व्यक्तियों जिन्हें नाम यहाँ नीचे दिये गये हैं, द्वारा हावर के गई लाइसेंसों के रखरखाव/अन्य कृत्रु अनियमितता देखी गई है। संबंधित लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे इस सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर शाखा में अथवा लोक व्यवस्था को धिनियम नहीं करते हैं तो बैंक लाइसेंस धारकों को समाप्त तथा उन्हें पर यह जो भी उचित समझे लाइसेंस को तोड़कर खोलने तथा आगे को जरूरी कार्रवाई करने के लिये वाध्य होगा।

आधा लाइसेंस धारक की संख्या हावर-बैंक का नाम एवं पता नई दिल्ली/पंजाबी बाग MSJA061 सैन्टर